

(Printed Pages 16)

Roll No. \_\_\_\_\_

24/1129

बी.कॉम. (पंचम सेमेस्टर) परीक्षा, 2024

**B.Com. (Fifth Semester)**

**Examination, 2024**

प्रथम प्रश्न-पत्र

**First Paper (Major)**

**Corporate Accounting**

समय : 2:00 घण्टे

पूर्णांक : 75

*Time : Two Hours ]*

*[ Maximum Marks : 75*

नोट : दिये गये निर्देशानुसार समस्त खण्डों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

**Note :** Attempt **all** sections as per instructions.

**खण्ड-अ / Section-A**

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

**(Very Short Answer Type Questions)**

नोट : सभी 05 (पाँच) प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न

**P.T.O.**



24/1129

02 (दो) अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है।

**Note :** Attempt all the **05 (five)** questions. Each question carries **02 (Two)** marks and answer of each question should not exceed 50 words.  $2 \times 5 = 10$

1. (a) अंशों का हरण क्या है?  
What is forfeiture of-shares?
- (b) समामेलन से पूर्व का लाभ अथवा हानि क्या है?  
What is profit or Loss Prior to incorporation?
- (c) मूर्त सम्पत्ति एवं अमूर्त सम्पत्ति को समझाइए।  
Explain Tangible assets and Intangible assets.
- (d) अंशों के आन्तरिक मूल्य तथा बाजार मूल्य से क्या आशय है?  
What is meant by Intrinsic value and Market value of shares?

24/1129

(e) आन्तरिक पुनर्निर्माण का आशय बताइए।

Explain the meaning of Internal Reconstruction.

### खण्ड-ब / Section-B

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

### (Short Answer Type Questions)

**नोट :** निम्न 8 (आठ) प्रश्नों में से किन्हीं 05 (पाँच) प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 05 (पाँच) अंकों का है। तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द है।

**Note :** Attempt any **05 (five)** questions out of total 08 (eight) questions. Each question carries **05 (five)** marks.  $5 \times 5 = 25$

2. (a) पूर्वाधिकार अंशों एवं समता अंशों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।  
Differentiate between Preference shares and Equity shares.



24/1129

(b) निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए-

- (i) एक कम्पनी ने ₹ 100 वाले, 500, 10% पूर्वाधिकार (अधिमान) अंशों का लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से सम-मूल्य पर शोधन (विमोचन) किया।
- (ii) वैष्णवी लि. ने ₹ 100 वाले 1,000, 10% पूर्वाधिकार (अधिमान) अंशों का लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से 20 % प्रब्याजि पर शोधन (विमोचन) किया।
- (iii) एक कम्पनी ने ₹ 10 वाले 15,000 समता अंश 10% प्रब्याजि पर निर्गमित किए जिससे कि इस प्राप्त धनराशि का ₹ 100 वाले 1,500, 10% पूर्वाधिकार (अधिमान) अंशों के सम-मूल्य पर शोधन (विमोचन) करने में प्रयोग किया जा सके, नये अंशों का पूर्णतया अभिदान किया गया और राशि चुका दी गयी।

24/1129

Give necessary journal entries in the following cases of :

- (i) A Company redeems 500, 10% Preference Shares of ₹ 100 each at par, out of profits, otherwise available for dividend.
- (ii) Vaishnavi Ltd. redeems 1,000, 10% Preference Shares of ₹ 100 each at a premium of 20%, out of profits, otherwise available for dividend.
- (iii) A Company issues 15,000 equity shares of ₹ 10 each at premium of 10% in order to utilise the proceeds to redeem 1,500, 10% Preference Shares of ₹ 100 each at par. The new issue is fully subscribed and paid for.



24/1129

(c) बिरला लिमिटेड ने ऋणपत्रों के निम्न निर्गमन किये-

- (i) नकद पर 5,000, 8 % ऋणपत्र प्रत्येक ₹ 100 वाले, 5 % प्रब्याजि (प्रीमियम) पर.
- (ii) एक लेनदार को जिसने ₹ 2,00,000 लागत की मशीनरी बेची थी; 2,200, 8% ऋणपत्र, प्रत्येक ₹ 100 के (बट्टे पर) तथा।
- (iii) अधिकोष (बैंक) को ₹ 1,00,000 की ऋण की जमानत में ₹ 100 वाले 2,000 ऋणपत्र, सहायक प्रतिभूति के रूप में।

उपर्युक्त व्यवहारों को जर्नल में प्रविष्ट कीजिए तथा बताइए कि चिट्ठे (स्थिति-विवरण) में 'ऋणपत्र' की मद किस प्रकार दिखायी जाएगी?

Birla Limited made the following issue of debentures :

- (i) For cash 5,000, 8% debentures of ₹ 100 each at a premium of 5%
- (ii) To a creditor who supplied machinery costing ₹ 2,00,000,

24/1129

2,200, 8 % debentures of ₹ 100 each (at a discount) and

- (iii) To Bank for a loan of ₹ 1,00,000 as collateral security, 2,000 debentures of ₹ 100 each.

Journalise the above transactions and show how the item 'Debentures' will appear in the Balance Sheet.

- (d) निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर औसत लाभ तथा अधिलाभ के पूँजीकरण विधि द्वारा ख्याति की राशि निकालिए-

Find out goodwill by the capitalisation of average profit and super profit method from the following informations : ₹

वास्तविक औसत लाभ	70,000
Actual Average Profit	
औसत विनियोजित पूँजी	3,20,000
Average Capital Employed	
सामान्य प्रत्याय दर	12%
Normal Rate of Return	



- (e) कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कम्पनी के लाभ-हानि विवरण-पत्र का प्रारूप काल्पनिक राशियाँ लेकर बनाइए।

Prepare format of statement of profit and loss of a company as per companies Act 2013 taking imaginary figures.

- (f) अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? इसके मूल्य निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

What do you understand by valuation of shares? What is the necessity of valuation of shares?.

- (g) विलय की प्रकृति में एकीकरण तथा क्रय की प्रकृति में एकीकरण से आप क्या समझते हैं? दोनों में क्या अन्तर है?

What do you understand by 'Amalgamation in the nature of merger' and 'Amalgamation in the nature of purchase'. What is the difference between the two?

- (h) आन्तरिक एवं बाह्य पुनर्निर्माण में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Distinguish between internal and external reconstruction.

### खण्ड-स / Section-C

#### (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

#### (Long Answer Type Questions)

नोट : निम्न 4 (चार) प्रश्नों में से किन्हीं 02 (दो) प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 (बीस) अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 400 शब्द है।

Note : Attempt any 02 (two) questions out of total 04 (four) questions. Each question carries 20 (Twenty) marks and answer of each question should not exceed 400 words.

$$2 \times 20 = 40$$

3. (a) एक सीमित कम्पनी ने ₹ 100 के 10,000 अंशों के लिए ₹ 10 प्रति अंश प्रीमियम पर आवेदन-पत्र आमन्त्रित करते हुए एक प्रविवरण निर्गमित किया। अंश राशि निम्नानुसार देय थी-  
आवेदन पर ₹ 20; आबण्टन पर (प्रीमियम शामिल करते हुए) ₹ 40 प्रथम माँग (याचना) पर ₹ 30 एवं द्वितीय माँग (याचना) पर ₹ 20।  
13,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें 2,000 अंशों के आवेदन-पत्र अस्वीकार करते हुए उनकी राशि लौटा दी गयी। शेष आवेदकों को आनुपातिक आबण्टन कर दिया गया। अतिरिक्त आवेदन पत्र की राशि का उपयोग आबण्टन में किया गया।



300 अंशों पर द्वितीय माँग (याचना) प्राप्त नहीं हुई और इन अंशों का विधिवत् हरण कर लिया गया। इनमें से 200 अंश ₹ 85 पूर्णदत्त के रूप में निर्गमित किए गए। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए।

A Limited Company issued a prospectus inviting applications for 10,000 shares of ₹ 100 each at a premium of ₹ 10 per share payable as follows :

On application ₹ 20; on allotment ₹ 40 (including the premium), on first call ₹ 30 and on second call ₹ 20.

Applications received for 13,000 shares of which application for 2,000 shares were refused and money returned. Allotment was made pro-rata to the remaining applicants.

Excess application money being towards the amounts due on allotment. Second call on 300 shares was not received and they were duly

forfeited. On these 200 shares were subsequently reissued at ₹ 85 per share as fully paid. Show the journal entries.

(b) ऋणपत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों को समझाइए।  
Explain the various methods for redemption of debentures.

(c) अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

Discuss the different methods of valuation of shares.

(d) 31 मार्च, 2020 को 'एक्स कम्पनी' लिमिटेड व 'वाई कम्पनी' लिमिटेड एकीकरण करने पर राजी हो गईं। उनके चिट्ठे निम्नांकित हैं-

'X' Company Limited and 'Y' Company Limited agreed to amalgamate as from 31st March, 2020 on which date their respective Balance Sheets were



24/1129

as follows :

विवरण (Particulars)	Note No.	X Co. Ltd.	Y Co. Ltd.
I. समता एवं दायित्व (Equity and Liabilities)		₹	₹
(1) अंशधारियों का कोष Shareholders' Funds			
(अ) अंशपूँजी (Share Capital)	1	80,000	25,000
(ब) संचय एवं अतिरेक (Reserves and Surplus)	2	10,000	5,000
(2) अंश आवेदन राशि आबण्टन लम्बित Share Application Money Pending Allotment		NIL	NIL
(3) गैर-चालू दायित्व Non-current Liabilities		NIL	NIL
(4) चालू दायित्व Current Liabilities व्यापारिक देय (लेनदार) Trade Payables (Creditors)		3,000	1,000
Total		93,000	31,000

12

24/1129

II. सम्पत्तियाँ (Assets)			
(1) गैर-चालू सम्पत्तियाँ Non-current Assets स्थिर सम्पत्तियाँ Fixed Assets	3		
(i) मूर्त सम्पत्तियाँ (Tangible Assets)		42,000	14,500
(ii) अमूर्त सम्पत्तियाँ (Intangible Assets)		10,000	3,000
(2) चालू सम्पत्तियाँ Current Assets			
(a) स्कन्ध (Inventory Stock)		15,000	7,000
(b) व्यापारिक प्राप्य (देनदार) Trade Receivables (Debtors)		22,500	6,000
(c) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (Cash and Cash Equivalents)	4	3,500	500
Total		93,000	31,000

13

P.T.O.



24/1129

## लेखा सम्बन्धी टिप्पणी (Notes to Accounts)

विवरण (Particulars)	X Co. Ltd.	Y Co. Ltd.
	₹	₹
1. अंश पूँजी (Share Capital) 80,000 समता अंश ₹ 1 प्रति (80,000 Equity Shares of ₹ 1 each) 25,000 समता अंश ₹ 1 प्रति (25,000 Equity Shares of ₹ 1 each)	80,000  --	-  25,000
	80,000	25,000
2. संचय एवं अतिरेक (Reserves and Surplus) सामान्य संचय (General Reserve) लाभ-हानि विवरण-पत्र (Statement of Profit and Loss)	7,500  2,500	1,000  4,000
	10,000	5,000
3. स्थायी सम्पत्तियाँ (Fixed Assets) :		
(i) मूर्त सम्पत्ति (Tangible Assets)		
फ्रीहोल्ड सम्पत्ति (Freehold Premises)	30,000	10,000
प्लाण्ट एवं मशीनरी (Plant and Machinery)	12,000	4,500
	42,000	14,500

24/1129

(ii) अमूर्त सम्पत्ति (Intangible Assets) एकस्वाधिकार (Patents)	10,000	3,000
	10,000	3,000
4. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (Cash and Cash Equivalents) :		
बैंक में रोकड़ (Cash at Bank)	3,400	450
हाथ में रोकड़ (Cash in hand)	100	50
	3,500	500

हस्तानान्तरक कम्पनियों की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए तथा नई 'एक्स' एवं 'वाई' कम्पनी लिमिटेड का चिट्ठा बनाइए जो कि एकीकरण वाली कम्पनियों को क्रय करने के लिए स्थापित हुई थी और प्रकट कीजिए कि पुरानी कम्पनियों के अंशधारियों को नई कम्पनी में कितने अंश आंबटित किये जायँगे। यह मानते हुए कि एकीकरण विलय की प्रकृति का है।

Pass the necessary journal entries in the books of both the transferor companies and drew up the Balance



**24/1129**

Sheet of the new 'X' & 'Y' Co. Ltd., which was incorporated to take over the amalgamated concerns and state the number of shares in the new company which will be allotted to the shareholders of the old companies assuming Amalgamation in the nature of merger.